



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 जुलाई, 2024

आषाढ़ 20, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

संख्या I/689993/2024-71-4099/34-2021

लखनऊ, 11 जुलाई, 2024

विज्ञप्ति

प0आ0-176

विज्ञप्ति संख्या I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा उ0 प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 4 सपठित उ0 प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 के नियम 3(1) के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 10(2) में निम्नलिखित प्राविधान है, जिसका उल्लेख उक्त सन्दर्भित विज्ञप्ति दिनांक 12 जून, 2024 में भी है:-

“समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।”

उक्त अधिनियम के अध्याय 2 की धारा 4(8) में निम्नलिखित उल्लेख है:-

“समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था या किसी समविश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से किसी विहित दिनांक तक ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी, जो प्रत्येक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा उपबन्धित निर्धारित की जाने वाली फीस को अवधारित करने के लिए समिति को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो और इस प्रकार अवधारित फीस ऐसी अवधि तक विधिमान्य रहेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।”

2-उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 जुलाई, 2024 से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए यू0 पी0 नीट एम0डी0एस0 के प्रथम चक्र की ऑन लाइन काउंसिलिंग हो रही है, जिसके पूर्व वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शुल्क का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार निजी क्षेत्र के चिकित्सा

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में शुल्क अवधारण हेतु वांछित सूचनायें प्राप्त करने में समय लगने की सम्भावना है तथा संस्थाओं को सुनवाई का अवसर दिये बिना शुल्क का अवधारण किया जाना नियमानुसार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क-निर्धारण के सम्बन्ध में किसी संस्था द्वारा समिति के समक्ष आवेदन नहीं दिया गया है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञप्ति दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा गठित समिति को शुल्क अवधारित करने का अवसर नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अधिनियम, 2006 की धारा 10(2) के अनुसार संस्थाओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार शुल्क अवधारित किया गया था, जो संलग्न है।

अतएव, वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार यह विनिश्चय करती है कि निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अवधारित शुल्क (संलग्नक-1, 2, 3 एवं 4) वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक विधिमन्य रहेगा। संलग्नक-1, 2, 3 एवं 4 (यथोक्त)

आज्ञा से,
पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव।

संलग्नक-1

एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शुल्क

क्र0सं0	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रुपये में)
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	13,73,760
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा।	12,69,319
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	11,85,133
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	11,70,612
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	12,80,037
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़।	11,81,671
7	रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली।	13,00,251
8	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।	13,21,492
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	12,66,579
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सीतापुर।	10,77,229
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	11,21,162
12	के0डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	12,28,240
13	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	12,28,406
14	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़।	13,09,968
15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	11,03,932
16	टी0एस0मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	12,99,199
17	नोएडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्धनगर।	11,92,211
18	जी0एस0मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	11,78,892

क्र०सं०	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रुपये में)
19	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	11,59,610
20	यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	11,90,401
21	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ। (एम०एस०वाई० मेडिकल कालेज, मेरठ)।	12,19,917
22	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	11,73,856
23	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रुहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	12,10,000
24	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गजरौला, अमरोहा।	11,10,508
25	नारायणा मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर	12,14,683
26	एस० के० एस० हॉस्पिटल मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा।	12,14,683

छात्रावास शुल्क—

(ए) नॉन ए०सी० — ₹ 1,50,000 प्रतिवर्ष।

(बी) ए०सी० — ₹ 1,75,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

सिक्वोरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)—

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्वोरिटी राशि को शामिल करते हुए:—₹ 3,00,000 (एक बार)।

विविध शुल्क—₹ 85,600 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र है।

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

संलग्नक—2**बी०डी०एस० पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित शुल्क**

क्र० सं०	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि ₹ में)
1	सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ।	₹ 3,42,000/—
2	आई०डी०एस० डेण्टल कालेज, बरेली।	₹ 2,93,000/—
3	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	₹ 3,60,000/—
4	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ।	₹ 2,93,000/—
5	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी।	₹ 2,93,000/—
6	डेण्टल कालेज, आजमगढ़।	₹ 2,93,000/—
7	पूर्वांचल डेण्टल कालेज, गोरखपुर।	₹ 2,93,000/—
8	के०डी० डेण्टल कालेज, मथुरा।	₹ 3,28,000/—
9	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	₹ 3,13,000/—
10	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर।	₹ 3,13,000/—
11	आई०टी०एस० डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा।	₹ 3,65,000/—

क्र० सं०	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रु० में)
12	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	रु० 3,84,000/—
13	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ।	रु० 3,13,500/—
14	स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज, ग्रेटर नोयडा।	रु० 3,65,000/—
15	बी0बी0डी0 डेण्टल कालेज, लखनऊ।	रु० 3,48,000/—
16	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद।	रु० 3,65,000/—
17	महाराना प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर।	रु० 3,21,000/—
18	आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।	रु० 3,38,000/—
19	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ।	रु० 2,93,000/—

छात्रावास शुल्क—

(ए) नॉन ए0सी0 — रु० 0.85 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 — रु० 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

सिक्वोरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)—

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्वोरिटी राशि को शामिल करते हुए—रु० 3,00,000 (एक बार)।

विविध शुल्क—रु० 0.40 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

मनोज कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव।

संलग्नक—3**एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित शुल्क**

क्र०सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रुपए में)		
		क्लीनिकल	पैथोलॉजी	नॉन क्लीनिकल
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	25,09,957	13,51,477	9,65,384
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा (शारदा विश्वविद्यालय)।	25,40,649	13,68,025	9,77,116
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	14,43,744	10,80,000	8,64,000
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	25,24,901	13,59,562	9,71,116
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	23,23,197	12,50,889	8,93,521
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़।	20,22,143	10,88,846	8,45,377
7	रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली।	23,09,009	12,43,216	8,88,056
8	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।	21,12,517	11,37,509	8,35,482
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	21,35,358	12,37,024	8,83,589
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सीतापुर।	20,40,950	10,98,973	8,20,359
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी।	20,30,961	10,93,571	8,18,235
12	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	20,74,900	11,17,300	8,00,000
13	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़।	20,63,010	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं

क्र०सं०	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रुपये में)		
		क्लीनिकल	पैथोलॉजी	नॉन क्लीनिकल
14	टी०एस०मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	21,63,946	11,11,700	8,00,000
15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
16	जी०एस०मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
17	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ। (एम०एस०वाई०मेडिकल कालेज, मेरठ)।	आवश्यकता नहीं	12,02,199	8,80,186
18	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	21,63,946	11,96, 543	आवश्यकता नहीं
19	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रुहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	21,63,946	12,02,199	8,80,186
20	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गजरौला, अमरोहा।	21,63,946	12,02,199	आवश्यकता नहीं
21	के०डी०मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	21,63,946	12,02,199	आवश्यकता नहीं
22	यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	आवश्यकता नहीं	11,96, 543	8,74,840

छात्रावास शुल्क—

(ए) नॉन ए०सी० सिंगिल आकूपेन्सी	—	रु० 2,50,000 प्रतिवर्ष।
(बी) ए०सी० सिंगिल आकूपेन्सी	—	रु० 3,00,000 प्रतिवर्ष।
(सी) नॉन ए०सी० डबल आकूपेन्सी	—	रु० 1,75,000 प्रतिवर्ष।
(डी) ए०सी० डबल आकूपेन्सी	—	रु० 2,10,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)—

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए रु० 5,00,000 (एक बार)।

विविध शुल्क—रु० 1,28,400 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित शुल्क

क्र0 सं0	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रु0 में)
1	सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ।	रु0 7,90,500/-
2	आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज, बरेली।	रु0 8,06,400/-
3	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	रु0 8,59,700/-
4	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ।	रु0 5,90,000/-
5	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी।	रु0 5,42,100/-
6	डेण्टल कालेज, आजमगढ़।	रु0 7,07,100/-
7	के0डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा।	रु0 6,70,400/-
8	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	रु0 7,65,000/-
9	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर।	रु0 8,03,300/-
10	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा।	रु0 8,16,000/-
11	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	रु0 8,10,000/-
12	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ।	रु0 4,97,500/-
13	स्कूल ऑफ डेण्टल साइंस, ग्रेटर नोयडा।	रु0 7,69,400/-
14	बी0बी0डी0 डेण्टल कालेज, लखनऊ।	रु0 7,26,900/-
15	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद।	रु0 6,72,300/-
16	आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।	रु0 7,67,600/-
17	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ।	रु0 6,00,000/-

छात्रावास शुल्क-

(ए) नॉन ए0सी0 सिंगिल आकूपेन्सी	-	रु0 1.25 लाख प्रतिवर्ष।
(बी) ए0सी0 सिंगिल आकूपेन्सी	-	रु0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।
(सी) नॉन ए0सी0 डबल आकूपेन्सी	-	रु0 87,500.00 प्रतिवर्ष।
(डी) ए0सी0 डबल आकूपेन्सी	-	रु0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है।

सिक्वोरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्वोरिटी राशि को शामिल करते हुए रु0 3,00,000 (एक बार)।

विविध शुल्क-रु0 1.00 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।